



CORDS CABLE INDUSTRIES LTD.

REGD. OFFICE : 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg,

Near Okhla Industrial Area Phase-III,

Old Ishwar Nagar, New Delhi - 110020

Tel : +91-11-40551200 ; Fax : +91-11-20887232

Website : www.cordscable.com ; Email : ccil@cordscable.com

CIN : L74999DL1991PLC046092

Date: 08.09.2025

Listing Department (Compliance Cell), National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400051 Symbol - CORDSCABLE	Listing Department (Compliance Cell), Bombay Stock Exchange Ltd. Floor 25, PJ Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001 Symbol- 532941
---	--

Sub: Newspaper advertisement regarding publication of public notice for conducting Annual General Meeting of the Company.

Dear Sir/Madam,

In accordance with Regulations 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, we enclose copies of the Notice published in 'Financial Express' and 'Jansatta' dated 07.09.2025 in connection with conducting Annual General Meeting of the Company on Monday, September 29, 2025, at 12:00 noon (IST) at International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), Hare Krishna Hills, Sant Nagar Main Road, East of Kailash, New Delhi 110065, in accordance with MCA Circular and SEBI circular as amended time to time.

You are requested to take note of the same and notify your constituents accordingly.

Thanking you.

Yours truly

Cords Cable Industries Limited

For Cords Cable Industries Ltd.

Garima Pant

Garima Pant Secretary

(Company Secretary)

Works :

(UNIT I) : A-525, E-518, 519, 520, Industrial Area Chopanki, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301019 (Rajasthan) Tel. No. : +91-7230003177

(UNIT II) : SP-239, 240, 241, Industrial Area Kaharani, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301019 (Rajasthan) Tel. No. : +91-7230003176

Order on anti-Adani Enterprises' content

IN A MAJOR relief to Adani Enterprises Limited (AEL), a Delhi court on Saturday restrained certain journalists and others from publishing unverified defamatory content against the firm. In an interim order, the court directed the journalists and foreign-linked NGOs to remove alleged defamatory material against the firm from articles and social media posts. Senior Civil Judge Anuj Kumar Singh was hearing a suit filed by the plaintiff (AEL), alleging that coordinated defamatory publications on paranjoy.in, adani-watch.org and adanifiles.com.au, along with related posts and videos, were designed to tarnish the business group's reputation and disrupt its global operations. The defendants in the case are Paranjy Guha Thakurta, Ravi Nair, Abir Dasgupta, Ayaskanta Das, Ayush Joshi, Bob Brown Foundation, Dreamscape Network International, Getup, Domain Directors trading as Instra and John Doe persons.

"There is a prima facie case in favour of the plaintiff...considering that continual publishing would further tarnish his image..." the court said. The court directed intermediaries like Google, YouTube, X, etc. to disable access to the alleged defamatory material within 36 hours. The court posted the matter for proceedings on October 9.

—PTI

Cords Cable Industries Limited
Registered Office: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg,
Near Okhla Industrial Area Phase-III, Old Ishwar Nagar, New Delhi-110020
Tel: 011-40551200 * Fax: 011-20887232 * E-mail: ccil@cordscable.com
website: www.cordscable.com * CIN: L74999DL1991PLC046092

NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING, BOOK CLOSURE, DIVIDEND AND RECORD DATE INFORMATION

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 29, 2025 at 12:00 noon (IST), at International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), Hare Krishna Hills, Sant Nagar Main Road, East of Kailash, New Delhi 110065, to transact the business as set forth in the Notice of AGM dated July 31, 2025.

In compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules made hereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with all applicable circulars on matter issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI, the Company has sent Notice of AGM along with the weblink to access the Annual Report 2024-25 including financial statements for the financial year 2024-25 and the Directors' Report on Wednesday, September 03, 2025, through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agents/Depository Participants (DPs).

Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, a letter providing a web-link for accessing the Annual Report for the Financial Year 2024-25 and Notice of the 34th Annual General Meeting of the Company has been sent to those shareholders whose email addresses are not registered with the Company / Registrar & Share Transfer Agent / Depositories.

Also, the notice of AGM and Annual Report will be available on the Company's website www.cordscable.com, on the website of M/s MUFG Intime India Pvt. Ltd. (Formerly M/s. Link Intime India Private Limited) (agency for providing the remote e-voting) at <https://instavote.linkintime.co.in> and on the website of Stock Exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com. Members may request for a copy of the same by writing to the Company at csco@cordscable.com.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 23, 2025 to Monday, September 29, 2025 (both days inclusive) for taking record of the members of the company for the purpose of the AGM.

Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard - 2 on General Meetings and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended time to time, read with MCA Circulars and other applicable laws, the Company is providing facility to its members holding shares as on **Monday, September 22, 2025**, being cut-off date, to cast their votes electronically on all the resolutions set out in the Notice of AGM from a remote location ("Remote e-voting"), through M/s MUFG Intime India Pvt. Ltd. (Formerly M/s. Link Intime India Private Limited), to whom the Company has engaged to provide Remote e-voting facility. The business of AGM may therefore be transacted through E-Voting services of M/s MUFG Intime India Pvt. Ltd. (Formerly M/s. Link Intime India Private Limited) and the members holding shares either in physical form or dematerialized form may cast their vote electronically. The detailed procedures / instructions for e-voting are contained in the 34th AGM Notice.

Also, the facility for voting through ballot polling paper shall also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to vote at the AGM. The Members, who have cast their vote through remote e-voting, may participate in the AGM but shall not be allowed to vote again in the AGM. Shareholders have the option to either cast their vote using the remote e-voting facility prior to the AGM or voting through ballot polling paper during the AGM.

All the members are informed that:

The remote E-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote E-Voting	Friday, September 26, 2025 at 09:30 a.m.
End of remote E-Voting	Sunday, September 28, 2025 at 05:00 p.m.

i. The remote E-voting module shall be disabled by M/s MUFG Intime India Pvt. Ltd. (Formerly M/s. Link Intime India Private Limited) beyond 05:00 p.m. on September 28, 2025 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;

ii. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on **Monday, September 22, 2025 ("Cut-Off Date")**. The Members participating in the 34th AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote at the AGM;

iii. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

iv. The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and

v. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, September 22, 2025, may follow the same instructions for e-voting as mentioned in the notice of AGM. However, if a person is already registered with M/s MUFG Intime India Pvt. Ltd. (Formerly M/s. Link Intime India Private Limited) for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote;

vi. Process for procuring user ID and password and registration of e-mail address for e-voting on the resolutions is set out in the note to the Notice of AGM for those shareholders who hold shares in physical mode or whose e-mail addresses are not registered with their depositories.

vii. The Board of Directors has appointed Mr. Kapoor Chand Garg, Practising Company Secretary (FCS-7145 & COP-7829) as the Scrutinizer to scrutinize the voting at the meeting and remote e-Voting process, in a fair and transparent manner.

x. It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the members are however requested to register their e-mail address, in respect of electronic holdings with the Depository through the concerned Depository Participants and in respect of physical holdings with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited.

c. SEBI vide its circular dated June 10, 2024 issued in this regard, has stated that the members holding shares in physical form, whose folios are not updated with any of the KYC details (viz. (i) PAN; (ii) Contact Details; (iii) Mobile No; (iv) Bank Account Details and (v) Signatures) shall be eligible for any payment including dividend, interest or redemption in respect of such folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. In accordance with the above, dividends in respect of physical folios wherein any of the above KYC details are not updated before the cut-off date i.e. Monday, September 22, 2025, will be held back by the company. Members may please note that the dividend will get credited to their bank account only after the KYC details are updated in the folio.

ii. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy/through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, **not later than 48 hours before the meeting.**

Helpdesk:

In case of any queries/grievances, members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and instavote e-voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in/Home> under Help section or visit Mr. Rajeev Ranjan, AVP – Link Intime, address C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (W), Mumbai- 400083, by sending e-mail at inotices@in.mpmis.mufg.com, instameet@in.mpmis.mufg.com or contact on 022-9186175.

Dividend and Record Date:

Members may be informed that the Board of Directors at its meeting held on May 27, 2025, has recommended a final dividend of Rs. 1/- per equity share of Rs. 10/- each ("Final dividend"). The final dividend, if declared at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source ("TDS"), on or before October 28, 2025 i.e. within 30 days of the AGM. The Company has fixed **Monday, September 22, 2025** as the Record Date for determining entitlement of Members to dividend for the financial year ended March 31, 2025.

The aforementioned information is being issued for the information and benefits of all the members of the company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI circulars.

For Cords Cable Industries Limited
Sd/-
Garima Pant
Company Secretary



Place : New Delhi
Date : 06.09.2025

FM thanks states for GST support

"**YESTERDAY, I HAVE** written a letter to each finance minister thanking them, saying, you can have any number of intense discussions and arguments, but finally, the Council rose to the occasion and gave relief to the people of India. And, I am grateful for that gesture," she said. The panel was to meet for two days starting September 3 to discuss the proposal made by the Centre but ended up approving it on the very first day after a daylong meeting.

"So the sense of the house was this is a proposal which is going to undoubtedly benefit the common man. There is no point in standing against it... Ultimately everybody came together for a good cause, and I'm truly very grateful," Sitharaman said.

The minister said states were always in favour of rate reduction and their only concern was with regard to their revenue implications post-tax cuts. "I even appealed to them, saying, for the sake of the people of India, please. It's not just the states, it's even the Centre that is going to get affected by the reduction. But we'll make up for it because once the rates come down, people are going to come out to buy, and that will take care of it (revenue impact). That's how consensus was arrived at," she said.

Sitharaman, speaking at a press conference following the GST Council meeting, had expressed her gratitude to the states for their cooperation and collaborative efforts in implementing one of India's most significant tax reforms.

On Saturday, she noted

that the Council had given a patient hearing to every comment and suggestion put forward by its members. "All points were thoroughly deliberated before arriving at a consensus," she said.

She also highlighted the inclusive nature of the discussions, adding that several ministers who wished to speak again after their initial points had already been debated were given the opportunity to do so.

"Their additional inputs were heard and taken into account," the FM emphasised. She also credited states for their constructive participation in the GST Council and their commitment to driving tax reform.

However, she slammed their criticism of the Modi government on the GST reforms as "ill-informed" and untouched by facts. Speaking with PTI, she was unsparing in her takedown of the Congress for blaming the BJP-led NDA government for keeping four tax slabs when the GST was introduced.

"It was not the BJP's decision nor the case that then-up for it because once the rates come down, people are going to come out to buy, and that will take care of it (revenue impact). That's how consensus was arrived at," she said.

Sitharaman, speaking at a press conference following the GST Council meeting, had expressed her gratitude to the states for their cooperation and collaborative efforts in implementing one of India's most significant tax reforms. On Saturday, she noted

FROM THE FRONT PAGE

What's on menu for India Inc?

"**WHETHER IT'S A** quick bite between meetings or a team treat after a deadline, DeskEats is built to match the rhythm of an office day," added Maloo. The curated offering reflects how food delivery is evolving: from just being about convenience, to solving nuanced workplace challenges. Like, meals without cutlery, snacks that can be eaten while typing, or team-friendly bundles. Early pilots reveal city-specific quirks such as chicken popcorn in Bengaluru, fries dominate in Mumbai, and garlic breadsticks top in Gurgaon.

Healthy nibbles and salads remain perennial favourites across all cities. If aggregators like Swiggy are reshaping desk dining, institutional food service providers are reinventing cafeterias, offsite kitchens for India Inc. Massive Restaurants, which operates Farzi Cafe, launched a cloud kitchen Salad Life, offering healthy, flavourful eats. Talking of corporate orders, founder & MD, Zorawar Kalra said, "We receive a significant number of office lunch orders, from high-density corporate hubs. Our top-selling items for office deliveries include the chicken salad, burrata pesto sandwich and falafel salad. We've noticed a strong preference for high-protein meals, with corporate looking for options that are both nutritious and satisfying. Companies are encouraging their teams to make better food choices, and we serve as a convenient partner across Delhi-NCR for this shift."

Food service company Rassense serves more than 3.25 lakh meals a day to clients like Tata Motors, Maruti and Hitachi. "There is a dynamic shift from one plate set-up to individualistic requirements," said Sanjay Kumar, CEO & MD, Rassense. "From lactose intolerance to low-carb meals, employees want food tailored to their health needs. Our in-house digital platforms track ingredient sourcing in real-time, ensuring both quality and traceability, while also supporting local farmers within a 150-km radius," added Kumar. This year, Kumar is projecting approx. 16% revenue growth, in line with industry standards. "Our strategy has been to pursue sustainable growth, ensuring that expansion is profitable and underpinned by partnerships with reputed clients," he said.

Food catering services & facilities management company Sodexo India serves over 1 million meals daily across 1,200 sites to provide on-site cafeteria management, off-site catering and corporate events catering solutions. "Our menus reflect evolving preferences such as vegan, gluten-free, or low-calorie without compromising taste or tradition, and cater to diverse palates. The idea is to give convenient healthy snacks, flexible menu options, dietitian-curated meals, and on-the-go options to the workforce. We offer comforting home-style meals and convenient grab-and-go snacks," said Rakesh Agarwal, COO, business food, Sodexo India, catering to corporate clients like Visa, Adobe, Adani, Uber, Tata to name a few, specifically in food services, on-site cafeteria management, off-site catering and

corporate events catering solutions. While the company has seen sustained double-digit growth in the corporate food segment in the last three years, it is now expecting offsite kitchens to contribute 10% of revenue by 2028. "We operate two state-of-the-art offsite production units at Hyderabad and Bengaluru, and are now expanding this model to Pune and NCR to meet the growing corporate demand for scalable, high-quality meal programmes," said Agarwal. Startups like Rebel Foods are leveraging cloud kitchens to deliver variety and novelty to a workforce that no longer wants the same thali every day. The company operates a portfolio of over 45 brands, including Faasos, Behrouz Biryani, and Oven Story across multiple countries, and is expanding its corporate footprint. "In the past month alone, we have catered to over 500 corporate locations, marking double-digit growth compared to last year," said Yash Madhani, head of growth, Rebel Foods. "Festive seasons such as Diwali parties drive spikes in demand, with volumes doubling in some cases," added Madhani.

Compass Group India, a global food services provider, is serving over 1.1 million meals daily across 857 client locations, using AI-powered kitchen management, farm-to-fork traceability, and nutrition-driven menu design to transform workplace food. The approach is sector-specific, from nutrition profiles for factory workers to bal-

anced menus for IT professionals. Compass group runs chef-led expeditions to rediscover regional recipes, integrate them into modern workplace menus. Eilor India, part of the France-headquartered Eilor Group, has recently taken a majority stake in Platos, a technology-led cafeteria management company, to elevate institutional dining in India. Rohit Sawhney, CEO, Eilor India said, "Our balanced bowls are crafted with the right mix of protein, fibre, and carbs, making them both nutritious and enjoyable. From Indian to global flavours, along with millet meals, fresh salads, and wellness menus, the idea is to serve food that's good for people and tastes good too. Our revenue is 70% higher than last year, with corporate partnerships at our core. Looking ahead, we're targeting 45% growth, including corporates, hospitals, educational institutions." India Inc feels workplace meals are driven by rising health consciousness. CK Suresh Babu, DGM, Administration, Larsen & Toubro, said, "We take inputs from our dietician regularly and get them incorporated in menu planning. Most employees are health conscious, so we focus on ensuring that the food menu should be balanced, palatable and interesting." Razorpay has partnered with Manipal Hospitals to transform employee meals from a nutritionist consultant. "We've curated a meal programme that makes healthy choices like salads and fruits now an integral part of meals. Our pantries are stocked with healthy snacks like muesli and yogurt," said Chitthanu Nagri, senior VP, people operations, Razorpay.

past month alone, we have catered to over 500 corporate locations, marking double-digit growth compared to last year," said Yash Madhani, head of growth, Rebel Foods. "Festive seasons such as Diwali parties drive spikes in demand, with volumes doubling in some cases," added Madhani.

Compass Group India, a global food services provider, is serving over 1.1 million meals daily across 857 client locations, using AI-powered kitchen management, farm-to-fork traceability, and nutrition-driven menu design to transform workplace food. The approach is sector-specific, from nutrition profiles for factory workers to bal-

Monsoon spurs sales

"**THE MONSOON SEASON** has always influenced consumer behaviour," a Flipkart spokesperson said, adding, "This year, categories such as umbrellas, raincoats, mosquito repellents and personal care items have seen significant growth as customers adapt to seasonal needs." Amazon highlighted similar trends. Rainwear, including raincoats, ponchos and bag covers, grew nearly 30% y-o-y, with kids' rainwear posting 35% growth. Umbrellas and warmers saw increased demand, while automotive protection products such as carand bike covers rose 30% year-on-year. "This monsoon, we witnessed strong consumer demand for rainwear, automotive accessories, and kitchen essentials," said KN Srikanth, director of home, kitchen and outdoors at Amazon India. He added that products such as electric kettles, geysers, water heaters and boilers are already showing early momentum ahead of the festive season. Myntra reported that customers are increasingly seeking functional products with a style quotient. "This year, since the start of the monsoon season, we saw a marked rise in demand for functional yet premium monsoon essentials. Between June and August, umbrellas grew by 1.6X, with rain suits also witnessing healthy growth compared to the same period last year. On M-Now, too, we've seen a spike in monsoon-related essentials like umbrel-

las, rain jackets, and flip-flops. This highlights how consumers are prioritising essential purchases that also align with their sense of style, making rainwear and related accessories a key part of their shopping this monsoon," said Bharath Kumar BS, head of revenue and growth at Myntra. Retailers also pointed to heightened consumer focus on health and hygiene during the rains. Mosquito repellents doubled, anti-firmz serums rose fourfold, and antibacterial soaps grew 2X. In footwear, slippers and clogs gained traction, with clogs recording a 1.5 times year-on-year rise. Across rainwear, black, blue and grey remained the most purchased colours.

India's water purifier market surged 32% during the monsoon season, as households placed greater emphasis on water safety amid rising concerns over waterborne diseases such as cholera, typhoid and hepatitis A. At Croma, nearly 35% of annual water purifier sales take place during the monsoon months. The retailer reported strong double-digit growth in the first quarter, reflecting consumer caution over drinking water quality. "Looking ahead, while industry growth is forecast at a 17-18% CAGR, Croma has set an ambitious target of 20-22% CAGR for its water purifier segment in FY26," a spokesperson at Croma-Infinity Retail said.

M&M cuts prices before deadline

FRENCH CAR BRAND Renault also announced that it will fully pass on the benefits of GST rationalisation across its three-product portfolio.

Customers can book the car at the new prices immediately across all dealerships nationwide.

The Renault Kwid, Triber and Kiger has seen reduction of up to ₹55,095, ₹80,195 and ₹96,395, respectively. The revised pricing, with reductions of up to ₹96,395, will be effective on all deliveries made on or after September 22, coinciding with the first day of Navratri.

Venkatram Mamillapalle, managing director of Renault India, said, "We believe this timely initiative will not only make our cars more accessible but also energise demand during the festive season." Toyota Kirloskar Motor (TKM), the country's fifth-largest carmaker, has announced a reduction of up to ₹3,49,000 on its cars. Its bestselling Crysta has seen a reduction of up to ₹180,600, while its flagship Fortuner has seen a reduction of up to ₹3,49,000.

The lowest maximum reduction was seen on the Rumion at ₹48,700.

The new prices will be effective from September 22. Varinder Wadhwa, vice-president, sales-service-used car business and profit enhancement, TKM, said, "The reform has not only enhanced affordability for customers but also strengthened overall confidence in the auto sector. Ahead of the festive season we expect this step will provide strong momentum and further accelerate demand."

BMW, the country's second-largest luxury car brand, also announced a reduction in prices. Its SUV range starting with the X1 has seen a drop of ₹1,80,000, the X5 by ₹6,60,000 and the X7 by ₹8,90,000. BMW's sedans starting with the 3 Series has seen a fall of ₹3,40,000 and the 5 Series by ₹4,10,000.

The newly introduced Gran Coupe 2 Series has seen a price reduction of ₹1,60,000.

Modi, Trump warm up to each other

THE TIES WITH Russia and India's refusal to stop buying Russian oil led to further deterioration of the relationship.

The latest outreach signals a thaw and likely resumption of talks. Talks on the BTA could start again, and if negotiators get back on the table, there is hope the penal part of the 50% tariff could be suspended. If that happens, it will bring huge relief to Indian exporters, facing a big drop in shipments to the US, their biggest market. US tariffs will slash India's exports to \$49.6 billion in FY2026, down 43% from \$86.5 billion. This drop will also weigh on the economy and drag down overall growth.

The June 17 call between Modi and Trump was the last direct reported engagement between the two leaders. Reportedly, the US role in ending the India-Pakistan conflict and a Nobel nomination for President Trump came up during the said call. Trade negotiations and other engagements on defence and related matters, however, continued post the phone call. In that period there were reports that Trump attempted to speak with Modi over the phone four times, but the leaders did not connect. All this back and forth saw the US going ahead with imposing 50% tariffs on Indian imports effective August 27.

KINGS INFRA VENTURES LIMITED
(CIN: L05000KL1987PLC004913)
Registered office: 14 B, 14th Floor, The Atria,
Opp. Gurudwara Temple, Thevara, Ernakulam - 682 015,
Tel: 0484 4865823, Email: info@kingsinfra.com,
Web: www.kingsinfra.com

NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Dear member(s)
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

A) The Thirty Seventh Annual General Meeting of the members of **Kings Infra Ventures Limited** will be held on **Monday, the 29th Day of September, 2025, at 3.30 P. M through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)** in accordance with General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 that allow companies to hold Annual General Meeting (AGM) in the manner detailed in General Circular No. 14/2020, dated 8th April, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/179 dated 12th May, 2020 without the physical presence of the Members at a common venue.

2. In accordance with Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the register of members and the book of Share Transfer of the company shall remain closed from **September 23, 2025 to September 29, 2025 (both days inclusive)**

3. The Notice of the 37th AGM and the Annual Report including the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025 has been sent only by e-mail to all those Members, email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants, in accordance with MCA Circular(s) and SEBI Circular.

B) Remote E-Voting:
Members holding shares either in Physical or in Dematerialized form, as on the cut-off date of **Monday, September 22, 2025** may cast their vote electronically on the businesses specified in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the Members are informed that:

i) The Ordinary and the Special Businesses as set out in the notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.

ii) The remote e-voting shall commence on **Friday, September 26, 2025 from 9 AM**, and ends on **Sunday, September 28, 2025 till 5pm** Cut-off date for voting is **Monday, September 22, 2025**.

iii) Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut off date i.e. **Monday, September 22, 2025**, may also obtain the login ID and password by sending a request to Registrar and Share Transfer Agent at info@in.mpmis.mufg.com or by calling them on +91 422 4958995, 2539835 or by sending a request at helpdesk.evoting@cdsindia.com.

iv) Members may note that:

a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting. Once the vote on a resolution is casted by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;

b) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM through the VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the E-voting system during the AGM;

c) The members participating in the AGM and who had not casted their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their votes through E-Voting system during the AGM; and

d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper;

v) The Notice of AGM and the Annual Report are available on the Company's website: <https://www.kingsinfra.com> and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice is also available on the website of CDSL at <https://www.evotingindia.com>.

vi) Kindly note that Individual members holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with their Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email id in their Demat Accounts in order to access the E-voting facility. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for E-voting and joining virtual meetings are explained in the Notice.

vii) All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25 Floor, Marathon Futurex, Marfatil Mills Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or call on 022-23058542/43.

By the order of Board
Sd/-
CS Nandita D.
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 06.09.2025
Place: Kochi

CALIFORNIA SOFTWARE COMPANY LIMITED
CIN: L72300TN1992PLC022135
Regd. Office: Workflo, Greta Towers, Industrial Estate,
Perungudi, OMR Phase 1, Chennai - 600 096.
E-Mail: investor@calsoftgroup.com

NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of M/s. California Software Company Limited (CIN: L72300TN1992PLC022135) will be held on **Monday, September 29, 2025, at 5.00 P.M (IST)** through video conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OVAM) to transact the business as set out in the Notice of the 33rd Annual General Meeting.

In compliance with MCA and SEBI Circulars, the electronic copies of the Notice of 33rd AGM along with the Annual Report for FY 2024-25 were sent on **Saturday, September 06, 2025**, to all the members whose email IDs are registered as of Friday, August 29, 2025, with the Company or the Depository Participants. The copy of the Annual Report for the FY 2024-25, along with the Notice, is also available on the Company's website, www.calsofts.com and the website of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evotingindia.com. Kindly note that, now, we have included a few additional pages to provide a more comprehensive view of our performance, goals, and strategic direction. The additional pages in this year's AGM report delve deeper into our operations, financial metrics, and other pertinent details. The revised report can be downloaded at https://www.calsofts.com/files/ugd/535075_853065987_abc4e2dad96b7723e334ad0.pdf

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 members are provided with the facility to cast their vote on resolutions set forth in the Notice of the 33rd AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of the members shall be in proportion to their holding of shares in paid-up equity share capital of the Company as of Friday, August 29, 2025 ("cut-off date").

i. The Remote E-voting shall commence on **Friday, September 26, 2025 (09:00 AM)**

ii. The Remote E-voting shall end on **Sunday, September 28, 2025 (5:00 PM)**

iii. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond **05.00 P.M. on Sunday, September 28, 2025**.

iv. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **Monday, September 22, 2025**.

v. The Company's Register of Members and Share transfer books will remain closed from **Monday, September 22, 2025, to Monday, September 29, 2025 (both days inclusive)** for the purpose of this AGM.

vi. Those members who shall be present in the AGM through the VC/OAVM facility and have not cast their votes on resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so shall be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM/ participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

vii. Any person who acquires shares of the Company and becomes members of the Company after notice has been sent electronically by the Company and holds shares as of the cut-off date is **Monday, September 22, 2025**, may obtain the login ID and password by sending a request at info@nsdl.co.in or to our Registrar and Transfer Agent (RTA) M/s. Integrated Registry Management Services Private Limited, email id: yuvraj@integratedindia.in with details of folio number.

viii. In case of queries, members may refer to the frequently asked questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the download section of <https://www.evoting.nsdl.com> or send a request to evoting@nsdl.com

For CALIFORNIA SOFTWARE COMPANY LIMITED
Sd/-
M. Vasudevan
Managing Director

Date: 06.09.2025
Place: Chennai

CORDS® कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 94, 1वीं मंजिल, सॉफ्ट दयाल वाक मार्ग, ओखला इंडियास्ट्रियल एरिया फेज-III के पास, ओल्ड इंदौर नगर, नई दिल्ली-110020
दूरभाष: ०11-40551200* फैक्स: 011-20887232* ई-मेल: ccil@cordscable.com
वेबसाइट: [www.cordscable.com] (https://www.cordscable.com/)
CIN: L74999DL1991PLC046092
34वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग, बुक क्लोजर, लाभांश और रिकॉर्ड तिथि की सूचना
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी में) इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस (ISKCON), हरे कृष्ण हिस्स, संत नगर मेन रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 पर आयोजित की जाएगी, जिसमे एजीएम सूचना तिथि 31 जुलाई, 2025 में निर्धारित कार्यों को निष्पादित किया जायेगा।
कोर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और सेबी द्वारा जारी सभी लागू परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग) दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (लिस्टिंग विनियम) के लागू प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी ने बुधवार, 03 सितंबर, 2025 को वार्षिक रिपोर्ट 2024-25, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरण और निदेशक मंडल की रिपोर्ट शामिल है, तक पहुंचने के लिए वेबलिक के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एगेंट्स/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेटर्स ("डीपी,ज") के पास पंजीकृत हैं।
सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 36(1)(ख) के अनुसार, उन शेयरधारकों को, जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तक पहुंचने के लिए एक वेब-लिक प्रदान करने वाला एक पत्र भेजा गया है।
साथ ही, एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.cordscable.com , मेसर्स एमयूएफजी इंडाएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स लिंक इंडाएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) (रिमोट ई-वोटिंग प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in और स्टॉक एक्सचेंजों (www.nseindia.com तथा www.bseindia.com) की वेबसाइटों पर उपलब्ध होगी। सदस्य कंपनी को csc@cordscable.com पर लिखकर इसकी एक प्रति का अनुरोध कर सकते हैं।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 जिसमें उसके तहत लागू नियम और सेबी (लिस्टिंग ऑब्जेक्शन्स एंड इन्वेक्शनर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 42 शामिल हैं के अनुसार कंपनी की वार्षिक आम बैठक के लिए सदस्यों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुकस मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 से सोमवार, 29 सितंबर, 2025 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।

रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश:
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सामान्य बैठकों पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड –2 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44, समय-समय पर संशोधित, एसीएफ परिपत्रों और अन्य लागू कानूनों के अनुसार कंपनी अपने उन सदस्यों जिनके पास सोमवार, 22 सितंबर, 2025 तक शेयर हैं (जो कि कट-ऑफ तिथि है) , जो एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर दूरस्थ स्थान ("रिमोट ई-वोटिंग") से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा मेसर्स एमयूएफजी इंडाएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स लिंक इंडाएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) जिसे कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया है, के माध्यम से प्रदान कर रही है। इसलिए, एजीएम का कामकाज मेसर्स एमयूएफजी इंडाएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स लिंक इंडाएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है और जिन सदस्यों के पास भौतिक या डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में वोट हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं/निर्देश 34वीं एजीएम नोटिस में दिए गए हैं। इसके अलावा, एजीएम में मतपत्र/मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध होगी और जो सदस्य एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला दिया है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शेयरधारकों के पास यह अवसर है कि वे एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करके या एजीएम के दौरान मतपत्र/मतदान पत्र के माध्यम से अपना वोट डालें। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी: रिमोट ई-वोटिंग का प्रारंभ शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को सुबह 09:30 बजे रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति रविवार, 28 सितंबर, 2025 को शाम 05:00 बजे
- मेसर्स एमयूएफजी इंडाएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स लिंक इंडाएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को 28 सितंबर, 2025 को शाम 05:00 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा और एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, उस सदस्य को बाद में उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सदस्यों के वोटिंग अधिकार सोमवार, 22 सितंबर, 2025 ("कट-ऑफ डेट") को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के अनुसार में होंगे। 34वीं एजीएम में भाग लेने वाले और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, वे एजीएम में वोट डालने के पात्र होंगे;
- कट-ऑफ तिथि के अनुसार केवल नवीं व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में होना है, वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा;
- जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, और
- वॉ। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी में शेरर प्राप्त करता है और कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 22 सितंबर, 2025 को शेयरों को रखता है, वह ई-वोटिंग के लिए एजीएम के नोटिस में उल्लिखित निर्देशों का पालन कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एम/एस एमयूएफजी इंडाएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एम/एस लिंक इंडाएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
- उन शेयरधारकों के लिए जिन्होंने भौतिक मॉड में शेयर रखे हैं या जिनके ईमेल पते उनके रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत नहीं हैं, प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ईमेल पते के पंजीकरण की प्रक्रिया एजीएम के नोटिस के नोट में दी गई है।
- निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2024 को, ब्रिटिशिन कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएन-7145 और सीओपी-7829) को बैठक में वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्कूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि ईमेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने इलेक्ट्रॉनिक होलिडियर्स के संबंध में डिपॉजिटरी के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेटर्स के साथ और भौतिक होल्डिंसर के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमयूएफजी इन्दाएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत कराएं।
- इन संबंध में सेबी ने 10 जून, 2024 को जारी अपने परिपत्र के माध्यम से कहा है कि जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, जिनके फोलीओ की भी केवाईसी विवरण [जैने (i) पैर; (ii) सफर्त विवरण; (iii) मोबाइल नंबर; (iv) बैंक खाता विवरण और (v) हस्ताक्षर] के साथ अपडेट नहीं हैं, वे ऐसे फोलीयो के संबंध में 1 अप्रैल, 2024 से किसी भी भुगतान, जिसमें लाभांश, ब्याज या मोचन शामिल है, के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से पात्र होंगे। उपरोक्त के अनुसार, भौतिक फोलीयो के संबंध में लाभांश, जिसमें उपरोक्त में से कोई भी केवाईसी विवरण 22 सितंबर, 2025 यानी सोमवार की कट-ऑफ तिथि से पहले अपडेट नहीं किया गया है, जो कंपनी द्वारा रोक दिया जाएगा। सदस्य कृपया ध्यान दें कि लाभांश उनके बैंक खाते में तभी जमा होगा जब फोलीयो में केवाईसी विवरण अपडेट हो जाएंगे।
- बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से या प्राक्सि/अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, बरातें कि निर्धारित फॉर्म में सभी प्रक्रिया/बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्राधिकरण कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में बैठक से 48 घंटे पहले जमा कर दिए जाएं।

सहायता डेस्क:
किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य https://instavote.linkintime.co.in/Home पर 'सहायता' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' ("FAQs") और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं, या श्री राजीव शर्मा, एसीपी-लिक इन्डायम, पता सी-101, 247 फ्लोर, एल.बी.एस.मार्ग विखरोली (वेस्ट), मुंबई- 400083 से cnotices@in.mmps.mufg.com, instanctee@in.mmps.mufg.com पर ईमेल भेजकर या 022-49186175 पर संपर्क कर सकते हैं।'

लाभांश और रिकॉर्ड तिथि:
सदस्य कृपया ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 27 मई, 2025 को हुई अपनी बैठक में 10/- रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1/- रुपये का अंतिम लाभांश ("अंतिम लाभांश") देने की सिफारिश की है। यदि एजीएम में अंतिम लाभांश वार्षिक तिथि जाता है, तो इसका भुगतान, शेयर पर कर कटौती ("टीडीएस") के अधीन, 28 अक्टूबर, 2025 को या उससे पहले यानी एजीएम को 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। मतदान में 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों को पात्रता निर्धारित करने हेतु सोमवार, 22 सितंबर, 2025 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों को जानकारी और लाभ के लिए और यह एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में जारी की गई है।

	कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
	हस्ता/-
स्थान: नई दिल्ली	गमिमा पंत
दिनांक: 06.09.2025	कंपनी सचिव



THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS

Read to Lead

त्रिवेद इंफ्रास्टेड्स लिमिटेड
(सीआईएन: L65100DL1988PLC033812)
रजिस्टर्ड ऑफिस: एस-524, एफ/एफ, स्कूल ब्लॉक, विकास मार्ग, साकेतपुर, दिल्ली-110092

सूचना
त्रिवेद इंफ्रास्टेड्स लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (“एजीएम”) मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को सुबह 10.00 बजे “एस-524, एफ/एफ, स्कूल ब्लॉक, विकास मार्ग, साकेतपुर, दिल्ली-110092” पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक में, नोटिस में बताए गए कार्य किए जाएंगे। यह नोटिस उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिनके नाम 5 सितंबर, 2025 को रजिस्टर में दर्ज हैं, साथ ही 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट भी भेजी जा रही है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के खंड 91 के अनुसार, कंपनी का सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 से मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा। अधिनियम के खंड 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और आम बैठक पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के स्टैंडर्ड 2 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को CDSL द्वारा प्रदान की गई सुविधा के माध्यम से सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से (“रिमोट ई-वोटिंग”) वोट करने का अधिकार प्रदान करने में प्रसन्न है, जैसा कि एजीएम के नोटिस में बताया गया है।

- रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख और समय: शनिवार, 27 सितंबर, 2025 (सुबह 9:00 बजे)
- रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तारीख और समय: सोमवार, 29 सितंबर, 2025 (शाम 5:00 बजे)
- वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि: शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025
- बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए बैलेट पेपर से वोट करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
- जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग से वोट करते हैं, वे मीटिंग में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन मीटिंग में अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
- एजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://www.jollyplasticindustriesltd.in/ और CDSL की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
- अगर आपको ई-वोटिंग से संबंधित कोई सवाल या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन में दिए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं।

त्रिवेद इंफ्रास्टेड्स लिमिटेड के लिए	हस्ताक्षर /—
दिनांक: 06.09.2025	सुनील कुमार अग्रवाल
स्थान: दिल्ली	प्रबंध निदेशक

स्वयं सॉफ्टवेयर लिमिटेड
(सीआईएन: L65100DL1992PLC047327)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 224, G/F, स्वयं सेवा, कोऑर्परेटि हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, शिमिल, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110032
सूचना
स्वयं सॉफ्टवेयर लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं (तीसरी) वार्षिक आम बैठक (“एजीएम”) मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को सुबह 09:00 बजे “224, जी/एफ, स्वयं सेवा, कोऑर्परेटि हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, शिमिल, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110032” में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ, 5 सितंबर, 2025 (शुक्रवार) को कंपनी के रजिस्टर में नाम दर्ज सदस्यों को भेजी गई बैठक की सूचना में उल्लिखित कार्य किए जाएंगे।
कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के खंड 91 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 23 सितंबर, 2025 (मंगलवार) से 30 सितंबर, 2025 (मंगलवार) तक बंद रहेगा। अधिनियम के खंड 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और आम बैठक पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के स्टैंडर्ड 2 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को बैंक द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (“रिमोट ई-वोटिंग”) से सभी प्रस्तावों पर वोट करने का अधिकार प्रदान करने में प्रसन्न है, जैसा कि एजीएम की सूचना में बताया गया है।
• रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख और समयरु शनिवार, 27 सितंबर, 2025 (सुबह 9:00 बजे)
• रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तारीख और समयरु सोमवार, 29 सितंबर, 2025 (शाम 5:00 बजे)
• वोट देने के लिए पात्रता तय करने की कट-ऑफ तारीख: शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025
• एजीएम में बैलेट पेपर से वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। बैठक में शामिल होने वाले सदस्य।
• जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग से वोट करते हैं, वे भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
• एजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.abhinavleaseinfinitd-in/ और बैंक की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
• यदि आपको ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (“FAQs”) और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं।

स्वयं सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए	हस्ताक्षर /—
दिनांक: 06.09.2025	हरिश कुमार शर्मा
स्थान: दिल्ली	प्रबंध निदेशक

न्यू लाइट इलेक्ट्रीज लिमिटेड
(पूर्व में न्यू लाइट अपैरल्टेज लिमिटेड के नाम से मशहूर)
सीआईएन : L27501DL1995PLC064005
पंजी कार्यालय : जोशी-29, बेल्समेंट, शिवाजी पब्लिक, राजा गाँव, नई दिल्ली, भारत - 110027 फोन नंबर : 8882152282
ईमेल : newlightapparel@gmail.com वेबसाइट : www.newlightapparel.com
30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग सूचना, बड़ी बंटी
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि न्यू लाइट इलेक्ट्रीज लिमिटेड (पहले न्यू लाइट अपैरल्टेज लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को अप. 1:00 बजे भारतीय मानक समय (आईएसटी) पर बीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओवीएस) के माध्यम से, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवस्था के निष्पादन एवं, आयोजित की जाएगी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सूचना का स्थान बनाए जाएगा। एसीएफ परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एफजो/सीएफडी/सीओई2/सीआईएन/बी/2023 / 120 तिथिदिनांक 11 जुलाई, 2023, और परिपत्र संख्या सेबी/एफजो/सीएफडी/सीओई2/सीआईएन/2024/ 133 तिथिदिनांक 03 अक्टूबर, 2024 (‘सेबी परिपत्र’) के अनुसार सदस्यों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजी की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। एतद्वारा, बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय को निश्चित करने वाली एजीएम की सूचना और सदस्यों की वित्तीय वर्ष 2024-25 (‘वार्षिक रिपोर्ट FY25’) की वार्षिक रिपोर्टें शुक्रवार, 05 सितंबर, 2025 को उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी गई हैं, जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं।
सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2024-25 कम्पनी की वेबसाइट www.newlightapparel.com स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड (‘बीएसई’) www.bseindia.com पर, साथ ही नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (‘एनएसडीएफ’) की वेबसाइट www.evotingsndil.com पर भी उपलब्ध है।
वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित दस्तावेज वार्षिक आम बैठक की सूचना प्रसारित होने की तिथि से सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं। इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य newlight.apparel@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं।
रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए अनुरोध :
1. कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) निगमावली, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमवली, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कम्पनी सदस्यों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने हेतु रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा सहित प्रदान कर रही है। मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 (“कट-ऑफ तिथि” तक भौतिक रूप में वोट करने वाले सदस्य, www.evoting.nsdl.com पर एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालेंगे।
2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) से आरंभ होगी तथा सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को शाम 05:00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) के बाद रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं होगी।
3. जिन सदस्यों ने एजीएम के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
4. एजीएम में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे।
5. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें या टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर सुभी पत्तली हाउस - वेरिफ प्रबंधक, एनएसडीएल को अनुरोध करें।
6. बंटी बंटी : कम्पनी के सदस्यों का शेयर अंशधार और शेयर अंशधार एजीएम के उद्देश्य से कुववार, 24 सितंबर, 2025 से मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेगा।
सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना और वित्थन रूप से एजीएम में शामिल होने के अनुरोध, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके या एजीएम में ई-वोटिंग के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ें।
वार्त्सेयू लाइट इलेक्ट्रीज लिमिटेड (पूर्व में न्यू लाइट अपैरल्टेज लिमिटेड के नाम से मशहूर)
हस्ता /— गमिगो शर्मा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 11129724

दिनांक : 5 सितंबर, 2025	प्रबंध निदेशक
स्थान : नई दिल्ली	डीआईएन : 11129724

न्यू स्वान मल्टीटेक लिमिटेड
सीआईएन : U34100DL2014PLC265736
पता: दुकान संख्या 310, तीसरी मंजिल, वंदेनाम क्राउन गेट,लॉट संख्या 2, सेक्टर-19, जिला न्यायालय परिसर, हनुवा, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली-110075, भारत
ईमेल: ac-nsnl@newswan.in , newswan@www.swanagro.in
दूरभाष संख्या: +91-161-4346000

11वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि न्यू स्वान मल्टीटेक लिमिटेड (कंपनी) की 11वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे, बीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों(ओवीएस) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित कार्यवाही करने के लिए आयोजित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ सदस्यों को भेजने का काम पूरा हो गया है। वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी के रजिस्टर और ट्रांसफर एजेंट, विंग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास उपलब्ध थे। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट/कंपनी को सूचित करें। हालाँकि, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य अपने पते में परिवर्तन,यदि कोई हो, तो अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को सूचित कर सकते हैं। यदि आप वैश्विक पब्लिकर क्षरण को रोकने के लिए अपनी कंपनी की वित्ता का समर्थन करना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि यदि आप कंपनी के शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखते हैं, तो कृपया अपनी ईमेल आईडी अपने डीपी के साथ पंजीकृत करें, और अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से रजिस्टर और ट्रांसफर एजेंट को सूचित करें। हालाँकि,यदि आप शेयर भौतिक रूप में रखते हैं, तो आप अपने पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से भी वोट किए गए पते पर अपने पंजीकृत हस्ताक्षर के द्वारा एक पत्र भेजकर कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं।
विंग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक 6-2, 8वीं मंजिल, पिनेकल बिल्डिंगसे पार्क, अल्ट्रा सेंटर के बगल में , महाकाली केस टैंड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई 400093 महाराष्ट्र, भारत ईमेल: info@bigshareonline.com
कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के साथ कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार,में,यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बंदीखाले आगामी वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से गुनुवार, 25 सितंबर, 2025 से मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।
कंपनी वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए सभी प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए कंपनी अपने सभी सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा (ई-वोटिंग) प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई है, जो कंपनी की वेबसाइट www.swanagro.in और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 (पात्र सदस्य) को भौतिक या अनौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, कंपनी की वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना में निर्दिष्ट सभी कार्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करके अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) शुरू होगी। रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी,
न्यू स्वान मल्टीटेक लिमिटेड के लिए हस्ताक्षर/— तनवीर कौत कंपनी सचिव
स्वान: नई दिल्ली दिनांक: 06.09.2025

सुफिन ग्रीन फाइनेंसलिमिटेड
सीआईएन : L65990DL2016PLC0447681
पंजीकृत कार्यालय : 202, द्वितीय तल, वेस्ट स्कॉर्ड टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली-110034, फोन नं: 011-43094300
ई-मेल: apmfinvestltd@gmail.com वेबसाइट : www.mufingreenfinance.com
09 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग जानकारी, पुस्तक का समापन
कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 कोर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ पठित अपने सामान्य परिपत्र संख्या 54 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20 / 2020 दिनांक 5 मई, 2020, और 9 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, इस संघ में शामिल है जारी किए गए परिपत्र, नतिनमन परिपत्र संख्या 9 / 2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 (एसीएफ परिपत्र), एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 9वीं (09वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सो